



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 485] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 1977/कार्तिक 25, 1899

*No. 485] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 1977/KARTIKA 25, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th November 1977

S.O. 766(E).—Whereas the seat in the House of the People of Shri Parkash Singh Badal, chosen to that House from 12-Faridkot Parliamentary constituency in the State of Punjab, has become vacant;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy before 26 December, 1977 (Monday), in accordance with the provisions of the said Act and the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/PB-HP/1/77(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1977

क्र० घा० 766 (घ).—पंजाब राज्य के 12 फरीदकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक सभा में चुने गए श्री प्रकाश सिंह बादल का उस सदन में स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह उक्त रिक्ति को भरने के लिए तारीख 26 दिसम्बर, 1977 (सोमवार) से पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 149 के तहत निर्वाचन आयोग के उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे।

[सं० 100/पंजाब-लोक० सं० 1 77(1)]

S.O. 767(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect of the bye-election to be held in 12-Faridkot Parliamentary Constituency in the State of Punjab in pursuance of its notification No. 100/PB-HP/1/77(1), dated 16 November, 1977.—

- (a) 23 November, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) 24 November, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 26 November, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 18 December, 1977 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
- (e) 26 December, 1977 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/PB-HP/1/77(2)]

का० आ० 767(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसार, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 पंजाब-लोक० सं० 1 77(1), तारीख 16 नवम्बर, 1977 के अनुसार, पंजाब राज्य के 12-फरीदकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में—

- (क) नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 23 नवम्बर 1977 (बुधवार) ;
- (ख) नामनिर्देशनों की संरीक्षा की तारीख 24 नवम्बर, 1977 (वृहस्पतिवार) ;
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 26 नवम्बर, 1977 (शनिवार) ;
- (घ) वह तारीख जिसकी, यदि आवश्यक हो, 18 दिसम्बर, 1977
तो मतदान होगा (रविवार) ; तथा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त 26 दिसम्बर, 1977 (सोमवार)
कर दिया जाएगा।

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100 पंजाब-लोक० सं० 1 77(2)]

S.O. 768(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8 a.m. to 4 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 12-Faridkot parliamentary constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/PB-HP/1/77(1), dated 16 November, 1977.

[No. 100/PB-HP/1/77(3)]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy

क्रा० घा० 768(अ)— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/पंजाब/लोक० सं० 1/77(1) तारीख 16 नवम्बर, 1977 के अनुसरण में, लोक सभा के लिए 12-कररीर कोट संसदीय-क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन के लिए 8 वजे पूर्वान्ह से 4 वजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/पंजाब/लो० सं० 1/77 (3)]

आदेश से

वी० नारायणमण्यन, सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

